



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1033) पटना, बृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर 2024

सं० 5/सी०आर०-104/2021-11238

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

संकल्प  
24 सितम्बर 2024

**विषय :-** भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण के संबंध में।

पी0ए0आर0 नियम, 2007 में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सभी स्तरों के पदधारकों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3943, दिनांक-10.05.2012, संकल्प संख्या-6199, दिनांक-01.08.2012, संकल्प संख्या-6698, दिनांक-12.08.2014, संकल्प संख्या-5447, दिनांक-18.07.2016, संकल्प संख्या-440, दिनांक-18.01.2017, संकल्प संख्या-8496, दिनांक-27.09.2018, संकल्प संख्या-4436, दिनांक-06.06.2019, संकल्प संख्या-6429, दिनांक-06.08.2019, संकल्प संख्या-7829, दिनांक-19.09.2019, संकल्प संख्या-10233, दिनांक-29.11.2019 एवं संकल्प संख्या-4439, दिनांक-05.05.2022 द्वारा बिहार संवर्ग के कतिपय संवर्गीय एवं गैरसंवर्गीय पदों के विरुद्ध कार्यरत भा0पु0से0 के पदाधिकारियों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है।

2. विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-9358, दिनांक-14.09.2022 द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग के अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है, जिसके विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन उक्त पद पर किया जा रहा है।

3. अतः भारतीय पुलिस सेवा के पदधारक यथा-अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण अब तक नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के उक्त पदधारक के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	प्रतिवेदित पदाधिकारी	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
1.	अपर निदेशक सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।	पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह- उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना।	महानिदेशक-सह- महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना।	विभागीय मंत्री

3. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार दास,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1033+571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>